

# नकली शराब बेचने वाले 20 हजार के ईनामिया समेत तीन गिरफ्तार

हिन्दुस्तान टीम, मिर्जापुर Newswrap | Sun, 13 Feb 2022 09:20 PM



देहात, स्वाट व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली शराब बेचने वाले 20 हजार रुपये के ईनामिया समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास 150 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुआ।

पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में रविवार को एसपी सिटी संजय वर्मा ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग व नकली शराब बनाने व बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रविवार को मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने देहात कोतवाली, स्वाट व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने करनपुर पहाड़ी स्थित ब्रह्म बाबा मंदिर के पास मैजिक से नकली शराब व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण समेत तीन अभियुक्तों को पकड़ लिया। अभियुक्तों के पास से 150 लीटर नकली शराब बरामद हुआ।

पुलिस ने अभियुक्त शहर कोतवाली क्षेत्र के किशुन प्रसाद की गली निवासी अनूप मालवीय उर्फ टाइगर, कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज निवासी राकेश गुप्ता व रानीबाग निवासी संजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि पूर्व में केमिकल मिलाकर अवैध अपमिश्रित शराब बनाकर नकली क्यूआर कोड व लेबल का प्रयोग कर असली के रूप में बिक्री करते हैं। लेकिन एक बार पुलिस की ओर से पकड़े जाने के बाद वाहन में ही शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्रियों को साथ लेकर चलते हैं। जरूरत के अनुसार पैकिंग कर बिक्री करते हैं।

अभियुक्तों के पास से मैजिक, 150 लीटर शराब, खाली शीशी, ढक्कन व क्यूआर कोड बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक काशी सिंह, विवेक दुबे, बाली मौर्या, पंकज यादव, चंद्रकेश पांडेय, राजबहादुर, मुनेश कुमार तिवारी, दिनेश कुमार मिश्रा, राजेश चौबे, बृजेश सिंह, राजेश यादव, राजसिंह राणा, संदीप राय, संजय वर्मा रहे।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/mirzapur/story-three-arrested-including-20-thousand-reward-for-selling-fake-liquor-5808350.html>